



THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

दि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

डी.सी.-1, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, नेहरू बालोद्यान के सामने, टॉक रोड, जयपुर।

ISO 9001-2008

Tel No. 2740336, Fax No. 0141-2740336

प्रशासनिक एवं कार्मिक अनुभाग

नं0आरएससीबी / कार्मिक / 2025-26 / 944

Email:- rscb.personnel@rajasthan.gov.in

Website:- www.rscb.org.in

दिनांक:-

यू.ओ.नोट

25 APR 2025

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरु की गई पहलो का लाभ जमीनी स्तर पर पहुँचाने एवं सहकारी समितियों के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण एवं विभिन्न योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. में Co-operative Intern के एक पद (संविदा आधार पर) के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाने हेतु बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने वाले विस्तृत विवरण संलग्न कर लेख है कि आज दिनांक 25.04.2025 को उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-यथावर्णित।

उप-महाप्रबन्धक (ईडीपी)

प्रबन्ध निदेशक

DETAILED ADVERTISEMENT FOR COOPERATIVE INTERNS

Applications are invited for the post of Cooperative Interns (Contract Basis) under the cooperative intern scheme of Ministry of Cooperation, Govt. of India at The Rajasthan State Cooperative Bank Ltd, DC-1, Lalkothi Shopping Centre, Tonk Road , Jaipur -302015. Desirable candidates willing to apply for the post should apply in the prescribed format addressed to Managing Director, The Rajasthan State Cooperative Bank Ltd, DC-1, Lalkothi Shopping Centre, Tonk Road , Jaipur -302015 or mail your application at rscb.personnel@rajasthan.gov.in before 15/05/2025 . Successful candidates will be called for interview, the date & time of interview will be notified later on the website.

A) Roles and duties of Intern:

The Intern will discharge following roles and duties:

1. The Intern will coordinate with PACS and other primary cooperatives and provide necessary guidance for the implementation fo initiatives taken by Ministry of Cooperation, GoI.
2. Interns will be responsible for solving day to day problems faced by PACS in computerization, preparation of business plans, projects, financing issues, various approvals, etc.
3. He/she will prepare and share weekly status report of the impementation of initiatives taken by Ministry of Cooperation in coordination with DCCB/StCB.

B) The broad terms on which the appointment of resource person would be made are indicated below:

a) Tenure:

The Cooperative Intern would be engaged on contract basis for one year.

b) Eligibility Criteria:

MBA or equivalent in Marketing Management/ Cooperative Management/ Agri Business Management/ Rural Development Management. Proficiency in computer is essential.

c) Age:

Candidate should be minimum of 21 years of age and maximum of 30 years.

d) Remuneration:

Rs. 25,000/- Per Month (Incentives extra as admissible), Interns may avail 10 days Casual Leave (CL) for the year and no other leaves will be granted.

